

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दानापुर

पत्रांक :- 63 अ००

दानापुर/ दिनांक :- 18.01.22

प्रेषक :

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, दानापुर ।

सेवा में,

विशेष सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना ।

विषय:- शीर्ष-MR (3054) Under Bihar Rural Road Maintenance Policy-2018 योजना अंतर्गत आवंटन के अधियाचना के सम्बन्ध में ।


महाशय ,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि शीर्ष- MR(3054) Under Bihar Rural Road Maintenance Policy-2018 योजना अंतर्गत पथों का आवंटन का अधियाचना का मांग विहित प्रपत्र में तैयार कर Signed Hard Copy of Recorded IRI के साथ अधियाचना हेतु भेजी जा रही है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त योजना का आवंटन उपलब्ध करने की कृपा की जाये ताकि संवेदक का भुगतान किया जा सके।

अनु :- यथोक्त।

विश्वसिभाजन


कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, दानापुर ।

Maintenance Policy -2018 (Initial Rectification and Surface Renewal)																		
Sl. No.	Pledge No.	Name of Road	Project ID as per MIS	Administrative Approval (AA) Letter No. & Date	Administrative Approval (AA) Length (in Km)	Administrative Approval (AA) Amount (in Lakh)	Agreement Amount	Agreement No. & Date	Date of Completion per Agreement	Actual Date of Completion	Value of BR (in mm/Km)	Thickness of Bitumen Layer (in mm)	Value of Bitumen Content in Percentage	Previous Total Allocated (in Lakh)	Up-to-date expenditure as per MIS (in Lakh)	Requisition against work done (in Lakh)	Remarks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	MR-N/20-21-Dampur/01	Construction of road from Kurkum Madhya Devi Ashtan To Kurkum Main Road	10100020545	3549 23.10.2019	1.800	85.98450	58.65909	18.670637	MRD/2020-21 01.09.2020	30.11.2021	02.12.2021	3161.111111	25mm	5%	0.000	0.000	58.65909	आर्द्र पृष्ठ की परत है, आर्द्र नमूने आर्द्र निष्पत्ति के अनुसार 50 सेमी शीतल एल्टी 50 मिमी पर उपरिपुष्क शीतल एल्टी 10 मिमी शीतल एल्टी के निम्न स्तर है।
2	MR-N/20-21-Dampur/01	Hindani To Alampur	10100102200	2154 06.07.2019	1.000	33.71970	26.3402	9.46214	MRD/2020-21 01.09.2020	30.11.2021	05.12.2021	2822.20	25mm	5%	0.000	0.000	26.3402	आर्द्र पृष्ठ की परत है, आर्द्र नमूने आर्द्र निष्पत्ति के अनुसार 50 सेमी शीतल एल्टी 50 मिमी पर उपरिपुष्क शीतल एल्टी 10 मिमी शीतल एल्टी के निम्न स्तर है।

Up-to-Date Physical Progress has been uploaded in MIS.

D.A.O
R.W.D., Works Division, Danapur

Executive Engineer
RWD, Works Division, Danapur

FORM GFR 19-A


(See Government of India's Decision (1) below Rule-150)
Form of utilisation Certificate up to the Month of January 2022

PIU: RWD Works Division , Danapur

Sl No.	Name of Scheme	Sanction No. & Date with Amount	Amount Received (In Rs.)	Particulars
1	Construction of Rural roads under New Maintenance Policy-2018	1. Current Allotment Vide Letter No:- 02 WE Dt:- 03.01.2022	22,79,83,290.00	Certified that out of Rs 22,79,83,290.00 received during the years 2021-22 in favour of Ex. Engineer, RWD, Works Div. Danapur Bihar a sum of Rs 21,22,75,472.00 has been utilized for the purpose of New Maintenance Policy-2018 Schemes as given in the margin for which it was sanctioned and that the balance of Rs. 1,57,07,818.00 remaining unutilized at the end of the period under
Total			22,79,83,290.00	

2. Certified that I have satisfied myself that the conditions of which the grants-in-and was Sanctioned have been duly fulfilled/are being fulfilled and that I have exercised the following Checks to see that the money was actually utilized for the purpose for which it was sanctioned
- Kind of Checks exercised
- (ixi) Works have been supervised by Executive Engineer/Superintending Engineer
 - (ixii) Periodical inspection has been conducted by Executive Engineer/Superintending Engineer
 - (ixiii) Construction material have been tested
 - (ixiv) Measurements have been recorded in the MBs and test check conducted by the Assistant
 - (ixv) All other codal formalities have been observed
3. Physical Progress achieved:
- (i) Construction of Road works.
 - (ii) Construction of CD work.

D.A.O
Rural works Deptt.
Works Division, Danapur


Executive Engineer
Rural works Deptt.
Works Division, Danapur

Name of The Road:- Hinduni To Alampur

Package No:- MR-N/20-21-Danapur/01

Total Length:- 1.00 Km

Block:- Phulwarisharif

Date	Time	Section No.	Length in km	Bumps in mm	Speed Rate	OR mm/km	IRI mm/km	CATEGORY ROAD	Latitude	Longitude	Event	$Y = 0 \cdot X^2 + 0.936 \cdot X + 278.4$		
21/12/21	14:45: 8	17	0.1	200	20.2	2000	2150	G	25.546985	85.60823	Normal	X = 2500		
21/12/21	14:45: 8	17	0.1	170	20.2	1700	2887	G	25.54676	85.59662	Normal	Y = 2618		
21/12/21	14:45: 44	17	0.1	280	30.3	2800	2899	G	25.54688	85.58502	Normal			
21/12/21	14:45: 44	17	0.1	260	30.3	2600	2712	G	25.54705	85.57423	Normal			
21/12/21	14:46: 0	17	0.1	260	30.3	2600	2712	G	25.547275	85.56295	Normal	(R) RURAL ROAD		
21/12/21	14:46: 19	17	0.1	290	20.2	2900	2992	G	25.547223	85.5508	Normal	Good	Average	Poor
21/12/21	14:46: 19	17	0.1	230	30.3	2300	3180	G	25.546685	85.54192	Normal	<4000	4001-5000	>5001
21/12/21	14:47: 0	17	0.1	300	30.3	3000	3086	G	25.546037	85.53635	Normal			
21/12/21	14:47: 18	17	0.1	290	20.2	2900	2992	G	25.54611	85.53637	Normal			
21/12/21	14:47: 44	17	0.1	250	30.3	2500	2618	G	25.54614	85.5364	Normal			
TOTAL			1.00	2530.00	262.60	25300.00	28228.00							
AVERAGE							2530	2822.8						

Md. Shadab
AIPM
21/12/21

M. S. S. S.
21/12/21
J. S.

M. S. S. S.
21/12/21
J. S.

21/12/21
J. S. S. S.
J. S. S. S.
J. S. S. S.


Name of Customer: Om Prakash Sharma
 Name of Work/ Road: Prindani to Alampur
 Lab Job number:
 Date: 21/12/2021
 Section No. 17

Test Date: 21/12/2021 Road Name: Prindani to Alampur
 Machine No: 374 Road Type: (R) RURAL ROAD
 Start S No: Side: Interval:
 Start E No: UV Range: 1150 To 4000 mm/km
 Weather: Dist Range: 0 To 11 0.1 * 1000 m
 Start Location: End Location:
 Equation: $Y = 0.0002 + 0.936 * X + 278.4$

Print Generate Report and Graph

Redraw Graph Map View

File C:\Users\BPRD23\OneDrive\Desktop\211219\SXs. Section No. 17, Eqn: $Y = 0.0002 + 0.936 * X + 278.4$
 Name of Customer: Om Prakash Sharma, Name of Work/ Road: Prindani to Alampur, Lab Job number:



Md. Shadab
 ATTN
 21/12/21

N. S. K.
 21/12/21
 5.5

Am
 21/12/21
 14.2

कायपालक अभियंता
 ग्रामीण कार्य विभाग
 कार्य प्रवर्तित, राणापुर.
 21/12/21